




# John Wesley Convent, Rohtak


Summer Vacation Home Work (2021-22)

Class : I



## Hurrah!

## Break Time.....




### General Instructions:

- Do your holidays homework in a very neat and tidy manner.
- Do the written work in separate notebook.
- Parents should converse most of the time in English with their wards.
- Submission date for the assignment as per subjectwise dates mentioned below:


Subject	Date of Submission
English	01.07.2021
Science & E.V.S.	02.07.2021
A&C, I.T. and G.K.	03.07.2021
Social Science	05.07.2021
Hindi & Sanskrit	06.07.2021
Maths	07.07.2021

- Do the work given in separate note book.



### English

1. Learn Chapter - 2 and Chapter - 3.
2. Read one page of course book daily.
3. Make a dictionary and write atleast 4 words daily.



4. Do any of these 2 activities:-

Make a minifolding book on personal cleanliness.



5. Make a model on life cycle of a frog or a butterfly. (Any 1).

6. Find out the names of railway stations and airports close to where you stay. This will help you to know your neighbourhood better .

### Maths:

1. Learn and write number names from 1 to 49 in notebook.
2. Make a chart of combination fact of these numbers (1,2,3)
3. Do practice of chapter 1 and 2 respectively.
4. Make a video of addition by using different objects. U can use these type of things match sticks beans, Icecream sticks ,buttons etc
5. Pick any two digit number (10to 49) and represent the number in tens and ones on the chart.For representing the tens and ones you can use these objects like bindi , colourful paper blocks&buttons etc.
6. Pick any two digit number make ice cream corn and write their number name and represent the tens and ones in blocks and show the addition also in the single ice cream cone.

### Hindi:

1. आ, इ,ई,ई,ऊ,ए,ऐ,ओ मात्राओं से संबंधित शब्दों का प्रतिदिन अभ्यास कीजिए।
2. आप गर्मी के मौसम में क्या-क्या खाते हैं किन्ही 4 चीजों के नाम लिखे व उनका चित्र बनाकर उसमें रंग भरे।
3. अपनी कार्यपुस्तिका में अलग-अलग रंगों की बिंदी चिपका कर उस रंग का नाम लिखिए।
4. योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है अपने शब्दों में योग पर 5 वाक्य लिखे और किसी भी एक योगासन का चित्र अपनी कार्यपुस्तिका में चिपकाए।
5. प्रतिदिन 5 वाक्य अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए।

6. गर्मियों में पिंजारे वाले किसी भी एक पेय पदार्थ का नाम लिखिए (जैसे शिंजी, कोई भी शेक) और उसका चित्र अपनी कॉपी में चिपकाए तथा एक वीडियो बनाए जिसमें आपने उसको कैसे बनाया है और क्या-क्या चीजें इस्तेमाल की हैं। बताया गया है।

### **I.T.:**

1. Paste pictures of different types of Machines in your Notebook.  
Electric Machines – any 5  
Manual Machines – any 5  
Fuel Machines – any 5
2. Paste pictures of different Parts of Computer in your Notebook.

### **G.K.:**

1. Write any 10 General knowledge points on Haryana.
2. Write any 5 precautions that you usually take in order to protect yourself from COVID-19 infection in G.K. notebook.
3. Write any 5 famous places in Haryana.

### **Art and Craft:**

1. Make a table dustbin with waste material.
2. Draw the Picture of any 4 objects that we use as a means to maintain our hygiene to protect ourselves from COVID-19 infection.

### **E.V.S. :**

1. Revise Chapter-2 and Chapter-3 from Course Book, Practice Book and notebook.
2. Prepare 1 stick puppet of any helper you are helped by. (Ch6)
3. Make a book mark to say big thank you to corona warriors.
4. Make a chart on healthy and unhealthy foods.
5. In your scrapbook, draw a picture of your teacher. Write 5 sentences about her.
6. Make a house using paper cup and coloured paper. Colour it to make it beautiful.

